



महाप्रबंधक

बनारस रेल इंजन कारखाना

वाराणसी - 221004

General Manager

Banaras Locomotive Works

Varanasi - 221004



## हिंदी दिवस संदेश

बरेका परिवार के प्रिय सदस्यगण,

आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई!

इस वर्ष पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बरेका में भी इसके उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन, नृत्य, संगीत, प्रभात फेरियों, रैलियों एवं अन्य समारोहों का आयोजन किया जा रहा है। इनके माध्यम से हम आजादी के लिए शहीद हुए अपने राष्ट्रनायकों को तो याद कर ही रहे हैं, आजादी के मूल्य को भी आत्मसात कर रहे हैं। इस समय यह याद रखना आवश्यक है कि राजभाषा हिंदी ने आजादी के आंदोलन में प्राण फूंकने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। इस भाषा के माध्यम से पूरब से लेकर पश्चिम तक तथा उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे देश के स्वतंत्रता सेनानी एक हो गए थे। स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की भूमिका को देखते हुए ही हमारी संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया।

सरकारी योजनाओं को जनता से जोड़ने में हिंदी की भूमिका आज और व्यापक हो गई है। बरेका ने इसकी ताकत को महसूस करते हुए कोविड से बचाव अभियान को हिंदी में संचालित किया और लाखों लोगों तक पहुँचने में सफल रहा।

अपने कार्यालयों में अधिक से अधिक हिंदी में कार्य करना न सिर्फ हमारा संवैधानिक दायित्व है, अपितु उन राष्ट्रनायकों की भावना का सम्मान भी है, जिन्होंने हिंदी को माध्यम बनाकर राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके माध्यम से हम तकनीक एवं विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक चिंतन एवं अनुसंधान को बढ़ावा देते हुए आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न पूरा कर सकते हैं।

आइए, हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी अपने जीवन एवं कार्यक्षेत्र में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करने का संकल्प लें।

जय हिंद।

दिनांक : 14.09.2021

  
( अंजली गोयल )